



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1244]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 29, 2005/अग्रहायण 8, 1927

No. 1244]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 29, 2005/AGRAHAYANA 8, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2005

का.आ. 1680(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 566 (अ) तारीख 19 अप्रैल, 2005 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 21 अप्रैल, 2005 में प्रकाशित की गई थी द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. (मदुरई- कन्याकुमारी सेक्शन) तक जिसमें बाईपास भी शामिल है, का निर्माण करने (चार लेन का बनाने), अनुसूचना, प्रबंधन और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार तारीख 24 मई, 2005 को “दिना थांथी” और “दि हिन्दू” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 120/000 कि.मी. से 224/000 कि.मी.(मदुरई से कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखण्ड के भीतर अर्जन की जा रही संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि

क्रम संख्या	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तिरुनेलवेली	पीरनचेरी	417/1बी	शुष्क	निजी	350	रामासामी रेडियार सुपुत्र कृष्णामूर्ति रेडियार
			418/1बी	शुष्क	निजी	400	पकियम सुपुत्र योसफ
			418/2बी	शुष्क	निजी	2050	अरुणाचलम सुपुत्र रामासामी चेतियार
			428/1बी	शुष्क	निजी	700	चेन्नाम्मल पत्नी रामासामी रेडियार
			428/2बी	शुष्क	निजी	900	चेन्नाम्मल पत्नी रामासामी रेडियार
			457/1बी	शुष्क	निजी	300	येसू मुथू सुपुत्र योसफ
			457/3बी	शुष्क	निजी	200	चेन्नामुथू उर्फ चिन्नापिच्चईकरन पुत्र समुदियान
			458/1ए2	शुष्क	निजी	300	चिन्नामुथू उर्फ चिन्नापिच्चईकरन पुत्र समुदियान
			458/1बी2	शुष्क	निजी	100	चिन्नामुथू उर्फ चिन्नापिच्चईकरन पुत्र समुदियान
			458/1सी2	शुष्क	निजी	150	राजाथी पत्नी थवामनी
			458/1डी2	शुष्क	निजी	200	येसू मुथू सुपुत्र योसफ
			458/2	शुष्क	निजी	200	चिन्नामुथू उर्फ चिन्नापिच्चईकरन पुत्र समुदियान
			458/3	शुष्क	निजी	100	थवामनी पुत्र

			458/4	शुष्क	निजी	100	एनटोनी येसू मुथू सुपुत्र योसफ
			459/3ए2	शुष्क	निजी	150	चिन्नामुथू उर्फ चिन्नापिच्चईकरन पुत्र समुदियान
			459/3बी2	शुष्क	निजी	600	चिन्नामुथू उर्फ चिन्नापिच्चईकरन पुत्र समुदियान
			459/3डी2	शुष्क	निजी	200	चिन्नामुथू उर्फ चिन्नापिच्चईकरन पुत्र समुदियान
			459/3इ2	शुष्क	निजी	300	चिन्नामुथू उर्फ चिन्नापिच्चईकरन पुत्र समुदियान
			531/3बी	शुष्क	निजी	1300	1. योवन पुत्र योसफ 2. येसू मुथू पुत्र योसफ
			532/3बी	शुष्क	निजी	500	पप्पाम्मल पत्नी मदमूथू
			532/4	पोरमबोके	सरकारी (राज्य)	50	तमिलनाडु सरकार
			533/1ए2	शुष्क	निजी	500	येसू पुत्र योसफ
			533/1बी2	शुष्क	निजी	600	पकियाम पुत्र योसफ राजापुडुकुडी
			533/1सी2	शुष्क	निजी	300	पप्पाम्मल पत्नी मदमूथू
			533/2	शुष्क	सरकारी (राज्य)	50	तमिलनाडु सरकार
2	नांगूनेरी	पम्पानकुलम	2/1बी1	नम	निजी	350	श्री वानुमामलई रामानुज जीर स्वामीगल मठ नांगूनेरी
			2/2बी1	नम	निजी	450	
			2/3ए	नम	निजी	300	
			2/3सी1	नम	निजी	250	
			3/1ए2	नम	निजी	600	
			3/7ए2	नम	निजी	1300	
			6/6बी	नम	निजी	50	
			6/7ए	नम	निजी	550	
			7/1ए	नम	निजी	550	
			7/2ए2	नम	निजी	1000	
			7/3बी1	नम	निजी	650	
			7/4बी1	नम	निजी	550	
			7/6ए	नम	निजी	300	

			8/1ए	नम	निजी	750	
			8/1सी1	नम	निजी	700	
			8/2ए2	नम	निजी	850	
			8/2सी1	नम	निजी	700	
			8/3ए2	नम	निजी	2650	
			8/4बी1	नम	निजी	900	
			8/5बी	नम	निजी	1450	
			9/1बी	नम	निजी	1900	
			9/2ए	नम	निजी	250	
			9/3ए	नम	निजी	200	
			9/4ए	नम	निजी	200	
			9/5ए	नम	निजी	300	
			9/6ए1	नम	निजी	900	
			64/2बी	शुष्क	निजी	4800	
			80/7बी	नम	निजी	50	
			80/8बी	नम	निजी	40	
			80/15बी	नम	निजी	100	
			81/1बी	शुष्क	निजी	100	
			82	शुष्क	निजी	2650	
			83/2	शुष्क	निजी	3850	
			81/3	पोरमबोके	सरकारी (राज्य)	250	तमिलनाडु सरकार

[फा. सं. भारासप्रा/तक/एलए/एमके/1/2003]
प्रभाकर, उपसचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th November, 2005

S.O.1680(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways), number S.O.566 (E), dated the 19th April, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 21st April, 2005 issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highways No.7, including the bypass, in the stretch from km 120.000 to km 224.000 (Madurai – Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification was published in the "Dina Dhanthi" and "The Hindu", both dated the 24th May, 2005;

And whereas no objections have been received by the Competent Authority;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore upon receipt of the said report and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette the land specified in the Schedule annexed hereto, shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Land with or without structure being acquired falling within the land stretch on National Highway No-7 from Km 120/000 to 224/000 Km (Madurai to Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu.

Serial Number	Name of the Taluk	Name of the Village	Survey Number	Nature of land	Type of Land	Area in Square Metres	Name of the Owners
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tirunelveli	Pirancheri	417/1B	Dry	Private	350	Ramasamy Reddiar S/o. Krishnamurthy Reddiar
			418/1B	Dry	Private	400	Packiyam S/o. Yoseph
			418/2B	Dry	Private	2050	Arunachalam S/o. Ramasamy Chettiar
			428/1B	Dry	Private	700	Chennammal W/o. Ramasamy Reddiar
			428/2B	Dry	Private	900	Chennammal W/o. Ramasamy Reddiar
			457/1B	Dry	Private	300	Yesu Muthu S/o. Yoseph
			457/3B	Dry	Private	200	Chinnamuthu alias Chinnapitchaikaran S/o. Samudian
			458/1A2	Dry	Private	300	Chinnamuthu alias Chinnapitchaikaran S/o. Samudian
			458/1B2	Dry	Private	100	Chinnamuthu alias Chinnapitchaikaran S/o. Samudian
			458/1C2	Dry	Private	150	Rajathi W/o. Thavamani
			458/1D2	Dry	Private	200	Yesu Muthu S/o. Yoseph
			458/2	Dry	Private	200	Chinnamuthu alias Chinnapitchaikaran S/o. Samudian
			458/3	Dry	Private	100	Thavamani S/o. Antony
			458/4	Dry	Private	100	Yesu Muthu S/o. Yoseph
			459/3A2	Dry	Private	150	Chinnamuthu alias Chinnapitchaikaran S/o. Samudian
			459/3B2	Dry	Private	600	Chinnamuthu alias Chinnapitchaikaran S/o. Samudian
			459/3D2	Dry	Private	200	Chinnamuthu alias Chinnapitchaikaran S/o. Samudian
			459/3E2	Dry	Private	300	Chinnamuthu alias Chinnapitchaikaran S/o. Samudian
			551/3E	Dry	Private	1500	1. Yovan S/o. Yoseph 2. Yesu Muthu S/o. Yoseph

1	2	3	4	5	6	7	8
			532/3B	Dry	Private	500	Pappammal W/o. Madammuthu
			532/4	Poramboke	Government (State)	50	Government of Tamil Nadu
			533/1A2	Dry	Private	500	Yesu Muthu S/o. Yoseph
			533/1B2	Dry	Private	600	Packiyam S/o. Yoseph Rajapudukudi
			533/1C2	Dry	Private	300	Pappammal W/o. Madammuthu
			533/2	Dry	Government (State)	50	Government of Tamil Nadu
2	Nanguneri	Pampankulam	2/1B1	Wet	Private	350	Sri. Vanumamalai Ramanuja Jeer Swamigal, Vanumamalai Mut, Nanguneri.
			2/2B1	Wet	Private	450	
			2/3A	Wet	Private	300	
			2/3C1	Wet	Private	250	
			3/1A2	Wet	Private	600	
			3/7A2	Wet	Private	1300	
			6/6B	Wet	Private	50	
			6/7A	Wet	Private	550	
			7/1A	Wet	Private	550	
			7/2A2	Wet	Private	1000	
			7/3B1	Wet	Private	650	
			7/4B1	Wet	Private	550	
			7/6A	Wet	Private	300	
			8/1A	Wet	Private	750	
			8/1C1	Wet	Private	700	
			8/2A2	Wet	Private	850	
			8/2C1	Wet	Private	700	
			8/3A2	Wet	Private	2650	
			8/4B1	Wet	Private	900	
			8/5B	Wet	Private	1450	
			9/1B	Wet	Private	1900	
			9/2A	Wet	Private	250	
			9/3A	Wet	Private	200	
			9/4A	Wet	Private	200	
			9/5A	Wet	Private	300	
			9/6A1	Wet	Private	900	
			64/2B	Dry	Private	4800	
			80/7B	Wet	Private	50	
			80/8B	Wet	Private	40	
			80/15B	Wet	Private	100	
			81/1B	Dry	Private	100	
			82	Dry	Private	2650	
			83/2	Dry	Private	3850	
			81/3	Poramboke	Government (State)	250	Government of Tamil Nadu

[F. No. NHA/Tech/LA/MK/1/2003]
PRABHAKAR, Dy. Secy.